

## कार्य का विवरण

### भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउण्डेशन (बीआरएलएफ)

1. रिक्त पद: कार्यक्रम संयोजक (04 पद), भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउण्डेशन, छत्तीसगढ़

2. बीआरएलएफ के विषय में

भारत सरकार द्वारा, सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, केन्द्र और राज्य सरकारों की भागीदारी में नागरिक सामाजिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से **भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउण्डेशन** की एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के जीवन और आजीविका में, खास तौर पर मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन और आजीविका में परिवर्तन लाना है।

बीआरएलएफ अपनी तरह की एक अनोखी पहल है और इस संस्था का निर्माण एक भागीदारी संस्था के रूप में हुआ है जिसमें एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के दाता, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रम (निगम की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत) हैं। बीआरएलएफ का मुख्य काम नागरिक सामाजिक संगठनों को उनके प्रमाणित हस्तक्षेपों के लिये मानव-संसाधन और संस्थागत खर्चों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, छोटे नागरिक सामाजिक संगठनों की क्षमता को बढ़ाने में निवेश करना, और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले व्यावसायिक मानव संसाधनों की क्षमता में वृद्धि करना है। अधिक जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट <http://www.brif.in> पर जाएँ।

परियोजना के बारे में

**उच्च प्रभाववाली मेगा -जलोत्सारण परियोजना, छत्तीसगढ़**

यह परियोजना महात्मा गांधी नरेगा ईकाई, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार और भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउण्डेशन और एक्सिस बैंक के बीच 5 अक्टूबर 2018 को आरंभ की गई। ऐसा अनुमान है कि इस परियोजना के, भूमि और जल संरक्षण के उपायों से, छत्तीसगढ़ राज्य के 13 जिलों के (सरगुजा, सूरजपुर, रायगढ़, कोर्बा, कोरिया, धमतरी, बलरामपुर, कांकेर, नारायनपुर, सुक्मा, बस्तर, दांतेवाडा और कवरधा) के 2८ खण्डों के ७.२९ लाख हेक्टेअर जलग्रहण क्षेत्र में रहने वाले लगभग एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त इस परियोजना का लक्ष्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय के सदस्यों और नागरिक सामाजिक संगठनों की, जलोत्सारण योजना के कार्यान्वयन के चोटी से मैदान तक के सिद्धांत के आधार पर क्षमता का निर्माण करना भी है।

3. कार्य का विवरण

**मुख्य उत्तरदायित्व -**

- कार्यक्रम संयोजक बीआरएलएफ, एसपीएमयू, और स्थानीय कर्मचारियों के लिये संपर्क-सूत्र होगा।
- कार्यक्रम संयोजक परियोजना की सभी गतिविधियों के सुचारु कार्यान्वयन पर नजर रखेगा और परियोजना के सभी प्रदेशों की उपलब्धि सुनिश्चित करेगा।
- कार्यक्रम संयोजक परियोजना की टीम के लिये सभी प्रकार की प्रचालन संबंधी सुविधाएँ जैसे कार्यालय के लिये स्थान, स्थिर परिसंपत्ति का उपयोग, उपभोज्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- कार्यक्रम संयोजक की जिम्मेदारी होगी -

परियोजना की गतिविधियों के रिपोर्ट और वित्त रिपोर्ट नियमित रूप से रिपोर्टिंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

खण्ड कार्यान्वयन टीम का नेतृत्व करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, परियोजना की गतिविधियों पर और परियोजना पर होने वाले खर्च पर नजर रखना, परियोजना में सहभागी अन्य हितधारकों और स्वयंसेवियों के बीच संयोजन करना

परियोजना के प्रदेशों और सोपानों की उपलब्धि के लिये परियोजना क्षेत्र में कार्यरत अन्य टीमों के सदस्यों के साथ सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना।

टीम को परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये मार्गदर्शन देना।  
सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ, प्रशिक्षण के लिये वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग के लिये सम्पर्क बनाए रखना।  
रिपोर्टिंग अधिकारी और प्रबंधन द्वारा दिये गए अन्य कार्यों को करना।  
पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना – समय पर रिपोर्टिंग

### **पात्रता, अनुभव एवं दक्षताएँ**

- किसी भी प्रवाह में, किसी प्रतिष्ठित संस्था से स्नातक या विज्ञान या मानविकी में अनुस्नातक और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में संप्रेषण कौशल।
- किसानों और समुदायों के समूहों के साथ संबंध बनाने के कौशल के साथ क्षेत्र में 20-25 का कार्यानुभव वाच्छनीय
- आवेदक में संबंधित हितधारकों/ एजेन्सियों के साथ मिलकर काम करने की और संयोजन को सुधारने की और जमीनी स्तर पर कार्य के निष्पादन की क्षमता होनी चाहिये।
- आयु मर्यादा -50 वर्ष

### **वाच्छनीय दक्षताएँ:**

- क) कंप्यूटर ज्ञान साथ अंग्रेजी और हिंदी में अच्छा संचार कौशल
- ख) बहु-सांस्कृतिक / बहु-विषयक टीम में काम करने की क्षमता
- ग) टीम में बहु-कार्य और अच्छी तरह से काम करने की क्षमता
- घ) आवश्यकता अनुसार यात्रा करने के लिए तैयार

**4. रिपोर्टिंग अधिकारी – वरिष्ठ कार्यक्रम अधिसाशी - बीआरएलएफ, नई दिल्ली**

**5. मासिक वेतन - ₹ 25,000 से 47,000 तक**

**6. अवधि: 6 माह (यह अवधि भविष्य में परियोजना की आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है)**

**7. पदों की संख्या: 4**

**8. स्थान: छत्तीसगढ़ के गहन खण्ड मुख्यालय, खण्ड नाम – बोदला, बकवण्ड, दांतेवाडा, सुक्मा।**

**9. संपर्क के लिये पता-**

टीम सैम्स  
स्ट्रेटेजिक अलाएन्स मेनेजमेन्ट सर्विसेस प्रा. लि.  
1/1बी, चौधरी हेतराम हाउस, भारत नगर,  
न्यु फ्रेन्ड्स कोलोनी, नई दिल्ली – 110025  
फोन. न. 011-26842162; 41653612

### **आवेदन प्रक्रिया**

इस पद पर कार्य करने में रुचि रखने वाले पात्रता प्राप्त आवेदक कृपया <https://recruitment.samshrm.com/JOBS/BRLF> लिंक के द्वारा दिनांक 12 मार्च 2021 तक ऑनलाईन आवेदन भेजें।

टिप्पणी - बीआरएलएफ एक समान अवसर देने वाली संस्था है। योग्यता प्राप्त महिलाओं को आवेदन देने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये आवेदक अपनी इच्छा से अपनी भाषा - हिंदी या अंग्रेजी - का चुनाव कर सकते हैं।